



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक 1946 (श0)  
(सं0 पटना 1050) पटना, शुक्रवार, 1 नवम्बर 2024

कृषि विभाग  
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

अधिसूचना

28 अक्टूबर 2024

सं० 13/उ० नि०-52/2020-1244—बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 की धारा-2 उपधारा ख के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल, बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 (बिहार अधिनियम संख्या 44, 1982) जो विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-एल०जी०-2-01182 लेज-467 दिनांक 16.04.1982 के रूप में बिहार के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया, वर्ष 1989 में उद्यान निदेशालय, बिहार का गठन कृषि विभाग के पत्र संख्या-पी०पी०एम०-26/84/13405 दिनांक 07.11.1989 में गठन उपरांत भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल द्वारा गठित बिहार उद्यान अधिनस्थ सेवा (कृषि अधिनस्थ कोटि-7) के प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली अधिसूचना संख्या-13/उ० नि०-52/2020-180 दिनांक 16.01.2024 अन्तर्गत बिहार उद्यान अधिनस्थ सेवा (कृषि अधिनस्थ कोटि-7) वर्ग-3 के पदों को संलग्न अनुसूची-1/1, 2/1 एवं 2/2 के अनुरूप सम्मिलित करते हैं।

2. पूर्व से विद्यमान पदों के सम्परिवर्तित अतिरिक्त पदों का प्रत्यर्पण एवं पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 22.10.2024 (मद संख्या-01) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

3. अधिसूचना निर्गत की तिथि से विद्यमान सभी पद समाप्त समझे जायेंगे तथा अधिसूचित पद प्रभाव में आ जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल  
सचिव।

अनुसूची-1/1  
बिहार उद्यान अधिनस्थ सेवा (कृषि अधिनस्थ कोटि-7)  
वेतनमान 25500-81100, लेवल-4

क्र० सं०	पूर्व से स्वीकृत पद		सम्परिवर्तित पद		अभ्युक्ति
	पदनाम/कार्यालय/स्थान का नाम	पदों की संख्या	पदनाम/कार्यालय/स्थान का नाम	पदों की संख्या	
1.	प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी	534	प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी	358	वरीय प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के लिए चिन्हित प्रखण्डों के अतिरिक्त

अनुसूची-2/1  
बिहार उद्यान अधिनस्थ सेवा (कृषि अधिनस्थ कोटि-7)  
वेतनमान 35400-112400, लेवल-6

क्र० सं०	पूर्व से स्वीकृत पद		सम्परिवर्तित पद		अभ्युक्ति
	पदनाम/कार्यालय/स्थान का नाम	पदों की संख्या	पदनाम/कार्यालय/स्थान का नाम	पदों की संख्या	
1.	प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी	534	<p><b>वरीय प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी</b>  <b>पटना</b>—दानापुर, पटना सदर, बाढ़, मसौढ़ी, बिहटा, पुनपुन, फुलवारीशरीफ, <b>नालन्दा</b>—बिहारशरीफ, राजगीर, हिलसा, गिरियक, कतरीसराय, <b>भोजपुर</b>—आरा, जगदीशपुर, पीरो, बिहियाँ, उदवन्तनगर, <b>बक्सर</b>—बक्सर, डुमराँव, चौसा, सिमरी, <b>रोहतास</b>—डिहरी, सासाराम, विक्रमगंज, तिलौथु, अकोढ़ीगोला, <b>कैमूर</b>—भभुआ, मोहनियाँ, भगवानपुर, दुर्गावती, <b>गया</b>—नगर, खिजरसराय, नीमचक बथानी, शेरघाटी, टिकारी, बेलागंज, मानपुर, <b>जहानाबाद</b>—जहानाबाद, काको, रतनी, अरवल—अरवल, कलेर, करपी, <b>नवादा</b>—नवादा, रजौली, हिसुआ, नारदीगंज, <b>औरंगाबाद</b>—औरंगाबाद, दाउदनगर, बारुण, ओबरा, <b>सारण</b>—मढ़ौरा, सोनपुर, छपरा, नगरा, गरखा, <b>सिवान</b>—सिवान सदर, महाराजगंज, पचरूखी, जीरादेई, <b>गोपालगंज</b>—गोपालगंज, हथुआ, बरौली, थावे, <b>मुजफ्फरपुर</b>—मुशहरी, कुढ़नी, काँटी, बोचहा, <b>पूर्वी चम्पारण</b>—मोतीहारी, अरेराज, रक्सौल, पकड़ीदयाल, चकिया, बनकटवा, सुगौली, बंजरिया, <b>पश्चिमी चम्पारण</b>—बेतिया, बगहा-1, नरकटियागंज, चनपटीया, नौतन, <b>सीतामढ़ी</b>—बेलसंड, पुपरी, नानपुर, डुमरा, परसौनी, <b>शिवहर</b>—शिवहर, पिपराही, <b>वैशाली</b>—हाजीपुर, महनार, महुआ, लालगंज, बेलसर, <b>दरभंगा</b>—दरभंगा सदर, बेनीपुर, बिरौल, बहादुरपुर, मनीगाछी, <b>मधुबनी</b>—रहिका, जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, फुलपरास, राजनगर, बिस्फी, <b>समस्तीपुर</b>—दहसिहराय, समस्तीपुर, पटोरी, रोसड़ा, पूसा, ताजपुर, <b>बेगूसराय</b>—चेरिया बरियापुर, बलिया, बेगूसराय सदर, तेघड़ा, बखरी, वीरपुर, नावकोठी, <b>मुंगेर</b>—मुंगेर, हवेली खड़गपुर, तारापुर, जमालपुर, बरियापरपुर, <b>लखीसराय</b>—लखीसराय, पिपरिया, रामगढ़ चौक, <b>शेखपुरा</b>—शेखपुरा, शेखोपुरसराय,</p>	176	यद्यपि उक्त प्रखण्ड/प्रमण्डल, वरीय प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के लिए चिन्हित किया गया है, जो प्रोन्नति का पद है। प्रोन्नति होने तक प्रखण्ड/प्रमण्डल रिक्त रहने की स्थिति में कार्य की महत्ता को देखते हुये प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं वरीय प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रखण्ड/प्रमण्डल में पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जा सकेगा।

		<p>बरबीघा, जमुई—जमुई, गिद्धौर, सिकन्दरा, भागलपुर—जगदीशपुर, कहलगाँव, नवगछिया, सबौर, नाथनगर, बांका—बांका, बाराहाट, फुल्ली डुमर, सहरसा—सिमरी बख्तियारपुर, कहरा, सतरकटैया, महिषी, सुपौल—सुपौल, त्रिवेणीगंज, निर्मली, मरौना, पिपरा, किशनपुर, मधेपुरा—मधेपुरा, उदाकिशुनगंज, घैलाढ़, सिंहेश्वर, पूर्णियाँ—बायसी, पूर्णियाँ पूर्वी, बनमनखी, धमदाहा, डगरूआ, कृत्यानंदनगर, किशनगंज—किशनगंज, कोचाधामन, पोठिया, अररिया—अररिया, फारबिसगंज, सिकटी, पलासी, कटिहार—कटिहार, मनिहारी, बारसोई, डंडखोरा, हसनगंज, खगड़िया—गोगरी, खगड़िया, अलौली, मानसी।</p>		
--	--	--	--	--

अनुसूची-2/2

बिहार उद्यान अधिनस्थ सेवा (कृषि अधिनस्थ कोटि-7)

वेतनमान 35400-112400, लेवल-6

क्र० सं०	पूर्व से स्वीकृत पद		सम्परिवर्तित पद		अभ्युक्ति
	पदनाम/कार्यालय/स्थान का नाम	पदों की संख्या	पदनाम/कार्यालय/स्थान का नाम	पदों की संख्या	
1.	उद्यान पदाधिकारी	76	वरीय प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी संयुक्त निदेशक उद्यान कार्यालय सभी प्रमण्डल में एक-एक पद	09	67 पद प्रत्यर्पित कार्यरत 03 उद्यान पदाधिकारी वरीय प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के रूप में सम्परिवर्तित।

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1050-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>